



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68]

No. 68]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 21, 2005/फाल्गुन 2, 1926

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 21, 2005/PHALGUNA 2, 1926

संस्कृति मंत्रालय

MINISTRY OF CULTURE

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2005

New Delhi, the 18th February, 2005

सा.का.नि. 84(अ).—केन्द्र सरकार, जलियाँवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम, 1951 (1951 का XXV) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) श्री आई. के. गुजराल, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, (2) पद्म भूषण सरदार उमराव सिंह, और (3) श्री वीरेंद्र कटारिया, पूर्व संसद-सदस्य (राज्य सभा) को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए जलियाँवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक न्यास के न्यासी के रूप में एतद्वारा मनोनीत करती है।

G.S.R. 84(E).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of Sub-section (1) of Section 4 of the Jallianwala Bagh National Memorial Act, 1951 (XXV of 1951), the Central Government hereby nominates (1) Shri I. K. Gujral, former Prime Minister of India, (2) Padam Bhushan Sardar Umrao Singh, and (3) Shri Virendra Kataria, Ex-Member of Parliament (Rajya Sabha) as Trustees of the Jallianwala Bagh National Memorial Trust for a period of 5 years with effect from the date of issue of this Notification.

[सं. एफ. 10-2/2004-सी. एंड एम.]

[No. F. 10-2/2004-C&M]

एल. रिंजाह, संयुक्त सचिव

L. RYNJAH, Jt. Secy.